



बिहार को NABARD द्वारा वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्तित, प्रत्यक्ष वित्तित तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार में 10372.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की।

- यह NABARD द्वारा राज्य को एक वर्ष में अब तक दी गई सबसे अधिक वित्तीय सहायता है और पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) की तुलना में 21% की वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्य बिंदु:

- पुनर्वित्तित को उत्पादन ऋण, निवेश ऋण और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB)** तथा **सहकारी बैंकों** के धान खरीद कार्यों हेतु बढ़ाया गया था, जबकि ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये राज्य सरकार को प्रत्यक्ष वित्तित सहायता दी गई थी।
 - किसान उत्पादक संगठनों (FPO)**, **वाटरशेड विकास**, **जनजातीय विकास**, **प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS)** **कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम**, **कौशल और उद्यम विकास**, **वित्तीय साक्षरता तथा जागरूकता कार्यक्रमों** के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में विकासात्मक पहल के लिये विभिन्न एजेंसियों को अनुदान सहायता प्रदान की गई थी।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

- नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तित प्रदान करने के लिये शीर्ष बैंकिंग संस्थान है।
- इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है।
- कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिये उत्तरदायी है।
- यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981** के तहत की गई थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना 26 सितंबर, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के प्रावधानों के तहत वर्ष 1975 में की गई थी।
- RRB वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं।
- RRB **ग्रामीण समस्याओं से परिचित होने के साथ सहकारी विशेषताओं** और वाणिज्यिक बैंक की व्यावसायिक एवं वित्तीय संसाधनों को जुटाने की क्षमता का वित्तित करते हैं।

सहकारी बैंक

- यह साधारण बैंकिंग व्यवसाय से निपटने के लिये सहकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। सहकारी बैंकों की स्थापना शेयरों के माध्यम से धन एकत्र करने, जमा स्वीकार करने और ऋण देने के द्वारा की जाती है।
- ये सहकारी ऋण समितियाँ हैं जहाँ एक समुदाय समूह के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं।
- वे संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं।
- सहकारी बैंक नमिन द्वारा शासित होते हैं:
 - बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
 - बैंकिंग कानून (सहकारी समिति) अधिनियम, 1955
- वे प्रमुख रूप से शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में विभाजित हैं।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ

- PACS **सहकारी समितियाँ हैं जो** अपने सदस्यों, जनिमें अधिकतर कसान हैं, को **अल्पकालकि ऋण** और अन्य सेवाएँ प्रदान करती हैं ।
- वे भारत में सहकारी ऋण संरचना के **ज़मीनी स्तर के संस्थान** हैं ।
- PACS को **कंप्यूटरीकरण, बहुसेवा, वदियुत, जल, दवाओं के वतिरण और सामान्य सेवा केंद्र (CSC)** के रूप में सेवाएँ प्रदान करके परिवर्तति कयिा जा रहा है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nabard-extends-financial-support-to-bihar>

